

**सिंह , श्रीमती माया**  
**भारतीय जनता पार्टी**  
**निर्वाचन क्षेत्र- ग्वालियर पूर्व (16)**



|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>जन्म तिथि-</b>        | 15 अगस्त, 1950  |
| <b>वैवाहिक स्थिति-</b>   | विवाहित   |
| <b>पति-</b>              | श्री ध्यानेन्द्र सिंह   |
| <b>संतान-</b>            | 2 पुत्र   |
| <b>शैक्षणिक योग्यता-</b> | एम.ए. (राजनीति शास्त्र)   |
| <b>स्थायी पता-</b>       | रानी महल पैलेस, लशकर, ग्वालियर (म.प्र.) दूरभाष-(0751) 2320518 मोबाइल-9868181794 फ़ैक्स-(0751) 2320808 ई-मेल-maya.singh@mpvidhansabha.nic.in |
| <b>स्थानीय पता-</b>      | बी-3, श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.) दूरभाष-(0755) 2431007, 2431008  |

**सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन का संक्षिप्त विकास क्रम-**

सन् 1980 से समाज सेवा में सक्रिय एवं ऑल इण्डिया वूमन कान्फ्रेंस से संबद्ध महिला मण्डल, ग्वालियर की अध्यक्ष. सन् 1980 में भा.ज.पा. में शामिल. सन् 1981-84 में भा.ज.पा. महिला मोर्चा ग्वालियर चंबल संभाग की संगठन प्रभारी. सन् 1981-83 में महिला मोर्चा म.प्र. की प्रदेश अध्यक्ष. सन् 1984 में नगर पालिक निगम ग्वालियर की पार्षद एवं उप महापौर. सन् 1991-93 में समाज कल्याण बोर्ड मध्यप्रदेश की कोषाध्यक्ष. सन् 1995-97 में अखिल भारतीय भा.ज.पा महिला मोर्चा की महासचिव. भा.ज.पा की अखिल भारतीय प्रवक्ता, भा.ज.पा. की अखिल भारतीय मुख्यालय प्रभारी एवं सन् 1997-2000 में अखिल भारतीय भा.ज.पा. महिला मोर्चा की अध्यक्ष. सन् 2000 में भा.ज.पा. की अखिल भारतीय सचिव एवं सन् 2000-2002 में महासचिव. अप्रैल 2002 में राज्य सभा सदस्य निर्वाचित एवं अनेक विभागीय और सभा समितियों की सदस्य तथा भा.ज.पा. संसदीय दल की सचेतक रहीं. सन् 2002 में भा.ज.पा. संसदीय दल की सदस्य, भा.ज.पा. की अखिल भारतीय चुनाव समिति की सदस्य, भा.ज.पा. मध्यप्रदेश की उपाध्यक्ष. वर्तमान में भा.ज.पा. मध्यप्रदेश की महासचिव एवं भा.ज.पा. की अखिल भारतीय कार्य समिति की सदस्य. अप्रैल 2008 में पुनः राज्य सभा सदस्य निर्वाचित एवं अनेक सभा और सभा समितियों की सदस्य तथा भा.ज.पा. संसदीय दल की मुख्य सचेतक रहीं. नारी उद्योग मंदिर की सदस्य सिंधिया कन्या विद्यालय के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पूर्व सदस्य, भरती निवारण संघ की पैट्रन, बाल भवन ग्वालियर की डायरेक्टर. निर्धन बच्चों के लिए बालक मंदिर स्कूल की स्थापना तथा निर्धन और निःशक्तों की सहायता के लिए कई संस्थानों और संगठनों की स्थापना.

सन् 2013 में पहली बार विधान सभा सदस्य निर्वाचित. तदनंतर मंत्री, महिला एवं बाल विकास.

**सम्प्रति:** मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.